

Name

Roll Number



INDIAN SCHOOL MUSCAT
MIDDLE SECTION
FINAL EXAMINATION 2017-18



HINDI (THIRD LANGUAGE)

Code: MZHN307

CLASS: VIII

Time Allotted: 2 Hrs

06.03.2018

Max .Marks: 80

- प्रश्न
- | | Marks |
|---|--------|
| प्रश्न 1 नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग करते हुए अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए।
(क) दुनिया (ख) पढ़ाई (ग) धन | 1x3=3 |
| प्रश्न 2 नीचे लिखे शब्दों के अर्थ हिंदी में लिखिए :
(क) सतत (ख) केश (ग) कर्म (घ) साँझ
(ङ) सोम (च) तृण (छ) निष्क्रिय (ज) आतप | 1x8=8 |
| प्रश्न 3 दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक-एक वाक्य में लिखिए।
1 मनुष्य का प्रथम कर्तव्य क्या है?
2 नारायण कैसा लड़का था?
3 'लुका-छिपी' शीर्षक कविता का कवि कौन है?
4 नारायण की किस बात पर पिता को हँसी आ गई थी?
5 सूर्य और चंद्रमा किस प्रकार अपना कार्य कर रहे हैं?
6 साँझ के समय मुन्ना माँ से क्या कहता है?
7 'मतलब की दुनिया' शीर्षक कहानी का लेखक कौन है? | 2x7=14 |
| प्रश्न 4 किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दो-तीन वाक्यों में लिखिए। (only 5)
1 फूल और बच्चे में कौन-सी दो बातें समान होती हैं?
2 'सत्कर्तव्य' शीर्षक कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है?
3 मित्र संख्या में अधिक होने चाहिए या कम? तर्क सहित उत्तर दीजिए।
4 'लुका-छिपी' शीर्षक कविता में कवि ने बच्चे की किन शरारतों का वर्णन किया है?
5 कवि के अनुसार मनुष्य में कौन-कौन से गुण विद्यमान हैं?
6 'मतलब की दुनिया' शीर्षक कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? | 3x5=15 |

प्रश्न 5

(क) दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए।

1x2 =2

1 अतीथी

2 प्रसंशा

(ख) निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए।

1x2 =2

1 राजू की सारी पुस्तक फट गई है।

2 कल दो लाख का टिकट विक गया।

प्रश्न 6

(क) निम्नलिखित वर्णों के मेल से बने शब्द लिखिए।

1x2 =2

1 म् + ए + ह + अ + म् + आ + न् + अ

2 द + उ + न् + इ + य + आ

(ख) दिए गए शब्दों के वर्ण-विच्छेद कीजिए।

1x2 =2

1 दोस्त

2 सुखी

प्रश्न 7 नीचे लिखे वाक्यों से उद्देश्य और विधेय को अलग-अलग करके लिखिए।

1x3 =3

1 छोटे-छोटे बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं।

2 अशरफ़ के पिता ने उसे प्यार से अपने पास बिठाया।

3 भारतीय किसान बहुत मेहनती होते हैं।

प्रश्न 8 नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया के भेद पहचानकर लिखिए।

1x4=4

1 सुधीर अपनी गाड़ी साफ़ करवा रहा है।

2 उसने सीता को डाँटा।

3 ड्राइवर अपनी बहन को पैसे दे देगा।

4 आसमान में विजली चमकने लगी है।

प्रश्न 9

(क) नीचे लिखे अव्यय शब्दों से वाक्य बनाइए।

1x3=3

1 परंतु

2 वाह!

3 के समान

(ख) नीचे लिखे वाक्यों की पूर्ति उचित अव्यय शब्दों से कीजिए।

½X6=3

1 ---- दुकान खुली होती ---- सामान मिल जाता।

2 ---- तुमने ---- देर कर दी है।

3 ---- चलो, ---- ट्रेन छूट जाएगी।

प्रश्न 10 उपयुक्त विराम चिह्न लगाकर वाक्यों को फिर से लिखिए।

½X8=4

- 1 माँ आप क्या लिख रही हैं
- 2 देखो जल्दी घर आ जाना
- 3 अंकल-आंटी चिंकी और भैया किससे बातें कर रहे हैं
- 4 हाँ मैंने रामू को कुछ पैसे दिए हैं

प्रश्न 11 अपने विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी पत्र-पत्रिकाएँ उपलब्ध करवाने हेतु प्रधानाचार्य को आवेदन-पत्र लिखिए।

5

अथवा

समय का महत्त्व बताते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखिए।

प्रश्न 12 किसी एक विषय पर लगभग [80-100] शब्दों में अनुच्छेद लिखिए।

5

- 1 प्रदूषण
- 2 विद्यालय में खेल-दिवस समारोह
- 3 मेरा भारत महान

प्रश्न 13 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए।

1x5=5

स्वस्थ शरीर के लिए भोजन तथा व्यायाम दोनों ही आवश्यक हैं। यदि हम सुखमय जीवन विताना चाहते हैं तो उत्तम भोजन के साथ-साथ हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करते समय कुछ प्रमुख बातों को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे -आयु, समय और शारीरिक क्षमता के अनुसार ही हम व्यायाम का चयन करें। दूसरा-हमें शुद्ध वायु और अधिक प्रकाश वाले स्थान में व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम से कई लाभ हैं -इससे शरीर में शुद्ध रक्त का संचार होता है, भोजन ठीक से पचता है, थकान कम होती है और मन भी प्रसन्न रहता है।

प्रश्न

- 1 व्यायाम करने से क्या लाभ होते हैं?
- 2 व्यायाम करते समय हमें किन-किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए?
- 3 'कम' और 'शुद्ध' शब्द के विलोम शब्द लिखिए।
- 4 स्वस्थ शरीर के लिए व्यायाम के साथ-साथ क्या ज़रूरी है?
- 5 पठित गद्यांश के लिए उचित शीर्षक [title] क्या होना चाहिए?
